



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 भाद्र 1937 (श0)  
(सं0 पटना 1026) पटना, बुधवार, 9 सितम्बर 2015

LokLF; foHkkx  
(औषधि नियंत्रण प्रशासन)

vf/kl ipuk  
8 uoEcj 2011

सं० 15/औ० 22-15/2011-1754(15)/स्वा०—आए दिन समाचार पत्रों के माध्यम से विभिन्न तरह के लुभावने/आपत्तिजनक विज्ञापनों द्वारा आम जनता को दिग्भ्रमित कर उपचार हेतु ठगा जा रहा है। ये मूलतः उन रोगों के निदान के लिए प्रकाशित होते हैं जो लाईलाज हैं यथा:— एड्स/दमा/अंधापन/बहरापन/नपुंसकता इत्यादि।

अतः सरकार ने सभ्यक विचारोपरांत ड्रग एण्ड मैजिक रेमेडिज (आब्जेक्सेनेबूल एडवरटाइजमेंट) एक्ट 1954 की धारा-11 के अंतर्गत विहित प्रावधानों के आलोक में औषधि नियंत्रण प्रशासन, बिहार, पटना के अधीन पदस्थापित सभी चिकित्सा पद्धतियों के औषधि निरीक्षकों को अपने क्षेत्रान्तर्गत ड्रग एण्ड मैजिक रेमेडिज (आब्जेक्सेनेबूल एडवरटाइजमेंट) एक्ट 1954 की धारा-8 के अधीन विहित शक्तियों प्रदत्त की जाती हैं।

(2) राज्य औषधि नियंत्रक के आदेश पर औषधि निरीक्षक अपने अधिसूचित कार्यक्षेत्र के अतिरिक्त राज्य के किसी भी भाग में आवश्यकतानुसार उक्त अधिनियम की धारा-8 के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं।

(3) किसी भी औषधि विशेष के संबंध में पत्राचार/अनुसंधान के पूर्व राज्य औषधि नियंत्रक से अनुमति आवश्यक है।

(4) अभियोजन एवं अन्तिम कार्रवाई के पूर्व विभाग (सरकार) से अनुमोदन आवश्यक है, ताकि कृत कार्रवाई का राज्यव्यापी प्रभाव पड़े एवं पारदर्शिता तथा एकरूपता बनी रहे।

fcgkj&jkT; i ky ds vkn's k l §  
%g(E½ vLi "V]  
Lkj d kj ds l a Ør l fpoA

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1026-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>